

उल्टा चाहिए था। यह देखना चाहिए कि पैदावार क्यों घटती है। यू० पी० गवर्नमेंट के कृषि मंत्री ने भरे हाउस में यह कहा कि मैंने अपने गांव में खाद के दस गड्डे खुदवाए थे, लेकिन जब तक मैं लखनऊ आया, तब तक वे 120 हो गए। 120 कागज पर हो गए बी० डी० धो० ने कहा कि दस गड्डे खुदवाये, उसके साथ बी० एल० डब्ल्यू० ने कहा कि दस गड्डे खुदवाये, कोघ्राप्रेषन के प्रफसर ने कहा कि दस खुदवाये, एक सरकारी मिनिस्टर की रिपोर्ट है कि गांव में दस गड्डे खुदवाये गये लेकिन पहुंचते पहुंचते कागज पर 120 गड्डे हो गए (इंटरप्रांच) माननीय प्रधान मंत्री जी घ्रा गए हैं। बड़ी भारी मूल्यवान तकरीर होने वाली है, इस वास्ते मैं बाद में जारी रख सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : धाप खत्म कीजिये एक दो मिनट में।

श्री यशपाल सिंह : माननीय सुब्रह्मण्यम साहब से मेरी दरकवास्त है कि कागजों के ऊपर वह इस मसले को हल करने की कोशिश न करें। इस मसले को वे जा कर खेतों में हल करें। मैंने अपनी आंखों से देखा है जो मैं धापको बतलाना चाहता हूं। सहारनपुर में श्री मोर फूड की मीटिंग हो रही थी। तहसीलदार है एक किसान ने पूछा कि क्या मीटिंग हो रही है और क्या मैं भी घनदर जा सकता हूं। तहसीलदार ने कहा कि तुम्हारे मतलब की वहां कोई बात नहीं हो रही है। श्री मोर फूड की मीटिंग हो और किसान के मतलब की कोई बात न हो, यह कैसी विडम्बना है।

मैं एक बात मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं। उनका फटिलाइजर क्या करेगा जब कि किसान का तीन तीन साल से ट्यूबवेल बना पड़ा है लेकिन उसको प्राज तक बिजली नहीं दी गई है। उसको पानी नहीं दिया जाता है। माननीय सुब्रह्मण्यम साहब का सब से पहला

फर्ज यह है कि जो प्राज डिसपैरिटी है बिजली की दरों में इसको वह दूर करे। इंटस्ट्रियलिरट्स को प्राज तीन पैसे फी यूनिट के हिसाब से बिजली दी जानी है लेकिन काश्तकार को उन्न स पैसे को दर से दो जातों है। यह जो डिसपैरिटी है यह खत्म की जाए। तब किसान प्राये बड़ेगा। अगर फटिलाइजर का इंतजाज नहीं होगा तो किसान हर्गिज हर्गिज प्राये नहीं बढ़ सकेगा। इस मामले में भी हमें सैल्फ सफिकेन्ट होना चाहिये। मैं चाहता हूं कि माननीय सुब्रह्मण्यम साहब यह भी वादा करें कि दिल्ली के दफ्तरों से सब काम नहीं होंगे प्रान्तीय राजधानियों के दफ्तरों से ही सब काम नहीं होंगे बल्कि गांव की पंचायतों द्वारा किसानों के लिए सब काम होंगे। अगर ऐसा किया गया तो यह मसला बड़ी प्रासानी से हल हो जाएगा।

15.31 hrs.

STATEMENT RE. CEASE-FIRE AND OTHER MATTERS.

डा० राम मनोहर लोहिया (फरेंबा-बाद) : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : अभी मत बोलिये। मैं धापको बयान के बाद बोलने दूंगा।

डा० राम मनोहर लोहिया : तां, बात डीक है।

The Prime Minister and Minister of Atomic Energy (Shri Lal Bahadur Shastri): I place on the table of the House a copy of the Security Council resolution dated the 20th September, 1965, relating to the current conflict between India and Pakistan—a conflict which commenced on the 5th August, 1965, when Pakistan launched a massive attack on India by sending thousands of armed infiltrators across the cease-fire line in our State of Jammu and Kashmir. [Placed in Library. See No. LT-4932/65].

As the Hon'ble Members would see, the Security Council had demanded that both Governments

[Shri Lal Bahadur Shastri]

should order a cease-fire effective from 12-30 p.m. Indian Standard Time today, the 22nd September, 1965. On the question of cease-fire, the views of the Government of India were stated in detail and without any ambiguity in my letters of September 14 and 15, 1965, addressed to the Secretary-General. As stated in these letters, the Government of India had clearly accepted that they would order a cease-fire without any pre-conditions on being informed that Pakistan had agreed to do the same. On receiving the Security Council resolution, therefore, we sent a communication to the Secretary-General, in accordance with our earlier stand, informing him that we would be prepared to issue orders for a simple cease-fire effective from the appointed time and date, provided Pakistan agreed to do likewise. A copy of this communication is also placed on the Table of the House.

Throughout yesterday, there was no further message from the Secretary-General, but in the early hours of this morning we received a message from him advising us to order a unilateral cease-fire in compliance with the relevant provisions of the Security Council resolution, with the proviso that our troops could fire back if they were attacked. This, of course, was entirely impossible. In a battle which is continuing, it is just not possible for one side to ask its soldiers to stop firing, leaving the other side free to continue its operations. Our representative at the United Nations was, therefore, instructed to inform the Secretary-General accordingly.

A further report was received a short while ago that at the request of the Foreign Minister of Pakistan, an emergent meeting of the Security Council was convened, at which an announcement was made, on behalf of Pakistan that they also had agreed to issue orders for a cease-fire and cessation of hostilities. From our side, the requisite orders are now being issued to our field commanders to

effect a complete cease-fire by 3.30 a.m. tomorrow morning.

The Security Council Resolution refers to other matters which will require consideration subsequently. However, the policy of the Government of India in regard to matters which are of vital importance to us and which relate to the present conflict, has been stated by me on more than one occasion on the floor of this House and also in my recent communications to the Secretary-General.

I do not propose to go into any further details at the present stage. Detailed discussions will have to take place and there would have to be a fuller study of the problems to which I have just referred. For this purpose, our representative at the United Nations will keep himself available to the Secretary-General.

There will now be a cessation of hostilities. Peace is good. However, there is still a threat from the Foreign Minister of Pakistan, which he held out today, while speaking in the Security Council. We have, therefore, to be very watchful and vigilant.

The nation has recently been going through its greatest trial. The times have been difficult but they have served a great purpose. The whole world knows now that the people of India—Hindus, Muslims, Sikhs, Christians, Parsees and others—constitute a united nation with a determined common will and purpose. On the battle front, the supreme sacrifice has been made by the members of all communities who have shown that they are Indians first and Indians last.

To our armed forces, I would like to pay on behalf of this Parliament and the entire country, our warmest tributes. By their valour and heroism, they have given a new confidence to the people of India. Those who have lost their beloved on the battle front, have made a contribution to the preservation of our independence which will never be forgotten by a

grateful nation. Their sorrow and their pride are shared by the whole country.

Mr. Speaker, Sir, I would now seek your permission to express to all the members of this august House, to all the political parties in the country, to the leaders of public opinion, of labour organisations, of business and industry, and of many other voluntary associations, my feelings of the deepest gratitude. In the hour of trial each one of the 470 million people of this country stood up shoulder to shoulder to meet the challenge to our freedom.

I should like to inform the House that on 18th September, 1965, I received a message from Mr. Kosygin, Chairman of the Council of Ministers, USSR, offering his good offices for bringing about improved relations between India and Pakistan. Mr. Kosygin is impelled by noble intentions. No one can ever contest the view that ultimately India and Pakistan will have to live together as peaceful neighbours. We cannot therefore say no to any efforts, which may help to bring about such a situation, made by those who are sincere and genuine in their feelings of goodwill and friendship. I have, therefore, informed Mr. Kosygin today that we would welcome his efforts and good offices.

I would also like to give the House some further details about the tragic accident in which the other day, we suffered a grievous loss. Investigations conducted on the spot show that the aircraft in which Shri Balvantray Mehta was travelling, was shot down by a Pakistani plane. The marks on the fuselage establish that gun fire had been used. Preliminary investigations by the Air Force authorities who also have visited the scene confirm that the aircraft was shot down at a low height. The ammunition recovered at the site of the crash also proves that the attacking aircraft was a Pakistani plane. That a non-combatant civilian aircraft should have been shot down in this manner is one of the most inhuman acts which we

must all deplore and condemn. Shri Balvantrayji, his wife and the others who were travelling with him have laid down their lives at the altar of the freedom of the country. Their names will remain enshrined in our memory.

We are still faced with the Chinese ultimatum. The House is aware that almost at the same time when the Chinese Government announced the extension of the time-limit of the ultimatum to India by 72 hours on September 19, their troops started provocative activities at several points of the border. On the Sikkim border, about which the Chinese have been making baseless and threatening allegations, the Chinese troops crossed the well-known and delimited boundary at Dongchui La and Nathu La on 20th and 21st of September respectively. They fired at our observation posts. They have tried also to intrude into our other territories. Our armed forces have clear instructions to repel the aggressor.

Yesterday, we sent a reply to the Chinese note of September 20 in which India was alleged to have intruded into Dum Chale and committed armed provocation. The Chinese charge was rejected as a fabrication and a cover-up for the intrusion and firing at Tsakur to which I have referred a little while ago.

The House is aware that on September 19, the Chinese Government sent us a note couched in unbecoming language, extending the period of the ultimatum, making demands for destruction of military structures etc. A copy of our reply has been placed on the table of the House together with copies of two other notes we sent yesterday. Regarding the so-called military structures we have already told the Chinese Government that if after joint inspection any structures are found on the Tibetan side of the border there can be no objection to their being demolished. I have been told that China has announced that some of

[Shri Lal Bahadur Shastri]

these so-called structures have been destroyed by our troops while withdrawing. All this is a product of their imagination.

I must tell the House that we view with grave concern the Chinese activities on the border and the armed intrusions into our territory. We have urged the Chinese Government in our note of September 21 replying to the Chinese note of September 19 to forsake the path of belligerence and intimidation and to return to the path of peace and reason in its relations with India. I hope that even at this late hour China will respond to this call and prevent a major crisis.

We do not know what the Chinese will do next. We have, however, to remain vigilant all along the frontier.

There are times of the greatest trial for the nation, but the people all over the country are now in that mood which alone ensure the preservation of country's freedom. We may have to face many ups and downs, but I know the people have steeled themselves into a resolve to meet even this bigger challenge. On our Armed forces, there may be a heavier responsibility. I have no doubt that they are in good spirits. We have no intention of under-estimating the gravity of the situation. But we have resolved firmly to meet this challenge to our freedom.

Some hon. Members rose—

Mr. Speaker: If the House desires, I can allow a few questions, one question to each party.

Several hon. Members: No. questions now.

Shri Raghunath Singh (Varanasi): No questions today.

डा० राम मनोहर लोहिया: अध्यक्ष महोदय, सवाल पूछने के पहले मैं अपना व्यवस्था का प्रश्न आप के सामने रखता हूँ।

अध्यक्ष महोदय: श्रीमि मीने सवालों की इजाजत नहीं दी है।

डा० राम मनोहर लोहिया: अध्यक्ष महोदय, आप संविधान की धारा 105 की उपधारा 3 को देखिये :

"In other respects, the powers, privileges and immunities of each House of Parliament, and of the members and the committees of each Houses, shall be such as may from time to time be defined by Parliament by law, and until so defined, shall be those of the House of Commons of the Parliament of the United Kingdom..."

बाकी मैं छोड़े देता हूँ। अब सवाल यह है कि जब युद्ध चलता रहे तो लोक सभा के और लोक सभा के सदस्यों के क्या अधिकार और क्या विशेषाधिकार हों, जब तक हमारी लोक सभा इस बारे में कोई कानून नहीं बना लेती है तब तक इस उपधारा के अनुसार हम को प्रश्नों की लोक सभा से उदाहरण मिलता है। और इसलिये मैं आप के सामने प्रश्नों की लोक सभा के कुछ उदाहरण रखना चाहता हूँ।

सब से पहले तो मैं आप को प्रश्नों की लोक सभा का एक उदाहरण देता हूँ जब कि वह घाट महीने तक लड़ाई चला चके थे। मई 7, 1940 का किस्ता है। नाब का पतन हो चुका था, अंग्रेज बड़ी मुसीबत में थे। उस वक्त भी एक स्थगन प्रस्ताव जो विरोधी दल ने रक्खा था मंजूर हुआ था और उस पर बहस हुई थी। मैं आपको खाली एक जूमला उस का पढ़ कर सुनाता हूँ। जो सख्त जूमले हैं उन को छोड़ देता हूँ क्योंकि सख्त जूमलों से शायद उन को चोट लग जाये। लेकिन जो कुछ मामूली जूमले हैं जब कि स्थगन प्रस्ताव प्राया मई 7 और मई 8, 1940 को.....

अध्यक्ष महोदय: यह तो जो आप का प्रार्थना है उस को सपोर्ट करने के लिये आप मिसालें दे रहे हैं। आप चाहते क्या

हैं यह बतलाइये। जो प्राप का प्वाइंट प्राफ प्रार्डर है उस को बतलाइये।

डा० राम मनोहर लोहिया : वह बतलाता हूँ। 16 अगस्त से हम जंग यहां बैठे हुए हैं—मुझ को तां खीर, तब से ही बोजने का मौका नहीं दिया गया मैं बहुत बाद में प्राया था—धीर अब 24 सितम्बर प्रा रही है। एक युद्ध चला, युद्ध खत्म भी हो रहा है, लेकिन यह अद्भुत लोक सभा रही है जो कि इस पर बहस नहीं होने देती।

अब मैं प्रापके सामने अंग्रेजों की लोक सभा के उदाहरण देना हूँ जिगमें स्पगन प्रस्ताव, सवाल प्राोर सारी चीजें होती रही हैं, उस वकन जब कि अंग्रेजों के सामने बड़ी मुनीबत के दिन थे। मैं खाली एक उदाहरण स्पगन प्रस्ताव का दूंगा एक उदाहरण खाली प्राप को सबालों का दूंगा एक बहस का दूंगा। इससे ज्यादा नहीं। उसके बाद मेरा निवेदन प्राप से होगा...

अध्यक्ष महोदय : जरा एक मिनट प्राप मेरी बात मुन लें। अगर किनी सेट प्राफ सर्कम्स्टान्सेज में, किन्ही हालत में, जब कि वहां जंग चल रही हो, उन्होंने बहस की हो, तो क्या हम पर यह लाजमी हो जाता है कि जब यहां जंग चलती हो तो हम जरूर बहस करें। प्राप जो मुझे बतालायेंगे वह यही तो कि जब वहां जंग चल रही थी तो उन्होंने बहस की। पार्लियामेंट बैठी रही, रेजोल्यूशन पास हुआ। उन्होंने जो कुछ किया उस की ही मिसालें तो प्राप मुझे देंगे। मैं प्रापसे अर्ज करना चाहता हूँ कि उन मिसालों को मुन कर भी तो हम को ही अगना बिजनेस रेगुलेट करना है। मैं यह नहीं कहता कि हक नहीं हो सकता इस पार्लियामेंट को कि वह रेजोल्यूशन पाम करे। किसी चीज पर डिस्कशन करना चाहे तो करे, बैठी रहे, प्राोर बैठना चाहे तो प्राोर बैठ ले।

इस हक से यह हाउस महकूम नहीं हो गया। इस हाउस के वही हक हैं जो वहां के हाउस के हैं। अगर हमको क्या करना चाहिए इसका प्रश्न्यार तो इस हाउस को है। यह नहीं कि जो दूसरे हाउस ने वहां किया है वह हमें जरूर करना है।

श्री मधु सिमये (मुंगेर) : वह विशेषाधिकार की बात कहते हैं। उसका जवाब तो दीजिए।

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): The House had never decided that there should be no discussion.

अध्यक्ष महोदय : मैं ने हाउस की सेंस ले ली थी।

डा० राम मनोहर लोहिया : मैं ने प्रापको उदाहरण पढ़ कर सुनाया है। प्रापको यह अधिकार नहीं है कि प्राप सदस्यों की खाली राय ले लें। या तो इस सम्बन्ध में प्राप इस संसद का कोई कानून बताएं, क्योंकि धारा में लिखा है :

'defined by Parliament by law'.

इस सम्बन्ध में कोई प्रापका ला है नहीं। इसलिए युद्धकाल में मेरे जो भी विशेषाधिकार होते हैं उस सम्बन्ध में मैं अंग्रेजों की लोक सभा का उदाहरण प्रापके सामने रखने का अधिकार रखता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : प्राप क्या विशेषाधिकार चाहते हैं। वह कौन सा अधिकार है ?

डा० राम मनोहर लोहिया : मेरे गर्भा विशेषाधिकार खत्म किए गए.....

Shri U. M. Trivedi (Mandsaur): When the Prime Minister had sent out this message and when he had called all the leaders, it was agreed

[Shri U. M. Trivedi]

that we would not ask any questions on this matter. That is why we all have kept quiet. His leader was also present then.

डा० राम मनोहर लोहिया : मुझे मेरी बात आप खत्म नहीं करने देंगे ? हो सकता है कि आपने जो अपना दिमाग बना रखा है, मेरे उदाहरणों के बाद आप उस दिमाग को बदल दें, क्योंकि यह हम सब लोगों के लिए शर्म की बात होगी, यह लोक सभा परमां खत्म हो जाएगी और हम न तो किसी स्वयं प्रस्ताव के द्वारा, न किसी सवाल के द्वारा न किसी और बहस के द्वारा अपनी राय बता सके हैं। यह एक अद्भुत बात होगी। जिस किताब में से मैं आपको पढ़ कर सुनाना चाहता था उसका नाम है "दी मोरी आफ पार्लियामेंट" यह अंग्रेजों की पार्लियामेंट की किताब है, और हमारे लिए लिखा जाएगा 'हिन्दुस्तान की लोक सभा की शर्म' और उसमें हम सब भागीदार होंगे, और सब से ज्यादा भागीदार अध्यक्ष महोदय आप होंगे, क्योंकि सारी बहस को चलाने वाले आप हैं। इसलिए मैं पहले आपको स्वयं प्रस्ताव के बारे में पढ़ कर सुनाना चाहता हूँ

अध्यक्ष महोदय : मैं ने मान लिया कि वहाँ उन्होंने बहस भी की होगी, उन्होंने डिस्कशन भी किया होगा, उन्होंने सवाल भी पूछे होंगे, उन्होंने कोई रिजोल्यूशन भी पास किए होंगे। आप यही हवाले तो देंगे। मैं यह माने लेता हूँ कि जो बातें इसमें लिखी हैं वहाँ की गयीं। लेकिन मैं ने अर्ज की कि उनके वहाँ करने से हमें भी वैसा करने का अवसर तो हो जाता है कि हम वैसा कर सकते हैं, लेकिन हम पर यह पाबन्दी तो नहीं हो जाती कि अगर उन्होंने डिस्कशन किया जिस दिन वहाँ गोलाबारी हुई तो हम भी जिस दिन वहाँ गोलाबारी हो डिस्कशन करें

Shri S. M. Banerjee: When should we discuss?

Mr. Speaker: That is a different thing altogether.

Shri S. M. Banerjee: Is this Lok Sabha or Parlok Sabha that we should discuss it post-mortem? (Interruptions).

Shri Kapur Singh (Ludhiana): I protest against this.

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं। मैं नहीं कह सकता कि यह परलोक सभा है। आपके लिए यह परलोक सभा होगी पर दूसरों के लिए तो यह लोक सभा है।

एक माननीय सदस्य : आप इसे परलोक सभा बनाना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : जो मैं ने सुना है उसमें कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है।

श्री मधु लिमये : उनके उदाहरण तो सुन लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : उदाहरण से कोई फायदा नहीं होगा। उससे मुझे क्या मदद मिलेगी ?

डा० राम मनोहर लोहिया : आप ध्यान दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : उदाहरण से कोई फायदा नहीं होगा। मैं ने आपका आररयूमेंट सुन लिया।

डा० राम मनोहर लोहिया : आपने नहीं सुना।

अध्यक्ष महोदय : मैंने सुन लिया। उसमें कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है।

15.54 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Ten of the Clock on Thursday, September 23, 1965|Asvina 1, 1887 (Saka).